



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमा शुल्क गृह, विल्लिंगडन आईलैंड, कोचिन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Website: www.cochincustoms.gov.in
E-mail: cochincustoms@nic.in

Control Room: 0484-2666422
Fax: 0484-2668468

कार्यालय आदेश सं. 72/2024
OFFICE ORDER No. 72/2024

मंत्रिस्तरीय संवर्गों में निम्नलिखित स्थानांतरण और तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक दिया जाता है:

The following transfer and posting in Ministerial Cadres is ordered with immediate effect and until further orders:

Sl.No	Name Shri/Smt./Kum.	Designation	From	To
1	Praveen Radhakrishnan	EA	Adjudication	Appraising (Bonds)
2	Jiju Antony	EA	Cash & Accounts	Import & Bonds
3	C P Kunjumol	EA	Appraising	ACC
4	Nitish S	EA	DRI, Cochin	Establishment
5	Chandrashekhar Yadav	EA	Appraising (Bonds)	License
6	Pankaj Kumar Verma	EA	Licence	PAD
7	Ravi Ranjan Kumar	EA	Establishmen t	Drawback
8	Ron Geogy	EA	PAD	Appeals Unit
9	C S Sindhyamol	EA	SIIB	Stats & UB
10	Rijas K R	EA	CRU	ACC
11	Aneesh P Mathew	EA	Admin- Airport	DRI, Cochin

12	K Jayaprakash	EA	Stats & UB	Import & Bond
13	Lissy T K	EA	Import & Bond	CRU
14	Darin S Joseph	EA	On joining	Establishment
15	Sreehari R	EA	On joining	Administration
16	Dilip Prasad	TA	Import & Bond	Appraising
17	K B Sindhu	TA	CRU	Prosecution Cell
18	P V Raveendran	TA	CRU	TSK-Appraising
19	T V Retheesh	TA	R&I-CCP	CRU
20	Sandeep E S	TA	ACC	Airport-Admin
21	Bibimol	TA	Disposal	R & I-CCP
22	M K Fahad	TA	R & I-CCP	CRU
23	Veguru Priyatham Reddy	TA	Legal	Adjudication
24	Nikitha George	TA	ACC	Administration
25	Jibin Kuriakose	TA	Import & Bond	Airport-Admin
26	Jangminthang Haokip	TA	Import & Bond	Disposal
27	Vishnu Dathan G	TA	Administration	Import & Bond
28	Sreejith G R	TA	Establishment	PRD
29	Kripa Susan Luke	TA	Administration	SIIB
30	Krishnendu K N	TA	Airport-Admin	ACC
31	Abhilash G P	TA	Drawback	Administration
32	Nikhil K	TA	Appeals Unit	Establishment
33	T A Sasi	TA	ACC	Cash & Accounts
34	Geethu Parthasarathi K	TA	CRU	Administration
35	Sharan T M	LDC	Administration	EDI

36	Jibin Das P	LDC	Administration	Legal
37	Vinu P S	LDC	Cash & Accounts	R & I-CCP

2. संबंधित एसी/डीसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी अधिकारी कार्यमुक्त हो जाएं और सीबीआईसी के निर्देश संख्या 954/15/2011 दिनांक 15.09.2011 के अनुसार उचित कार्यभार सौंपने और कार्यभार ग्रहण करने के साथ कार्यभार ग्रहण करें तथा यह कार्य 03.07.2024 को या उससे पहले पूरा कर लिया जाए।

Respective AC/DC should ensure that all officers are relieved and join with proper handing over and taking over notes as per CBIC Instruction No. 954/15/2011 dated 15.09.2011 and the same is to be completed on or before 03.07.2024.

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This is issued with the approval of the competent authority.

(अश्विन जॉन जॉर्ज Ashwin John George)
संयुक्त आयुक्त Joint Commissioner

प्रेषित **To:** Individuals concerned.

प्रतिलिपि प्रेषित **Copy submitted to:**

The Chief Commissioner, Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone, C.R. Building, I.S. Press Road, Cochin- 682 018.

प्रतिलिपि **Copy to:**

1. The Assistant Commissioner (Estt.), Office of the Commissioner of Customs (Preventive), 5th Floor, Catholic Centre, Broadway, Kochi -682031.
2. Additional Director General, Cochin Zonal Unit, DRI.
3. Commissioner (Appeals), C.R. Building, I.S. Press Road, Cochin- 682 018
4. Commissioner's file, ADC/JC, DCs/ACs, EDI (for uploading in website)